



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1038]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2014/वैशाख 19, 1936

No. 1038]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2014/VAISAKHA 19, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2014

**का.आ. 1254(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 404(अ) तारीख 10 फरवरी, 2014, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 15 फरवरी, 2014, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में राजस्थान राज्य में मेहसाना से भटिण्डा (चित्तौड़गढ़-उदयपुर सेक्शन) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 20.03.2014 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) में निहित होगा;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

## अनुसूची

तहसील : गिरवा		जिला : उदयपुर	राज्य : राजस्थान		
क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	बिछडी	1 1 2 5	00	02	50
		1 2 8 5	00	03	20
		1 6 4 4	00	14	18
		2 5 1 0	00	00	85
		2 5 1 1	00	00	40
2	छोटाभलोकागुडा	1 3 7 3	00	00	43
		9 8 7	00	00	80
3	भलोकागुडा	2 1 5 3	00	01	03
		3 0 8 3	00	01	08
		2 9 5 0	00	00	40
		4 9 7 7/3 2 6 9	00	02	75
		3 3 2 2	00	00	40
		3 2 1 2	00	01	45
		3 2 5 3	00	01	44
		4 6 5 3	00	01	80
		4 5 9 0	00	00	40
		4 4 0 9	00	02	55
4	मोट देवरा	4 0 3 4	00	01	36
		4 0 6 5	00	01	80
		4 0 8 4	00	01	20
		4 1 8 5	00	00	90
		4 1 7 2	00	03	20
		4 2 2 1	00	04	00
		4 2 4 2	00	02	50
		4 2 8 4	00	01	08
5	खेगरो की भागल	4 5 2 9/6 5 3 6	00	02	90
6	लकडवास	2 9 1 7	00	05	00
		3 3 2 8	00	16	95
7	कानपुर	2 4 2	00	02	02
		1 7 5	00	00	40
8	खेड़ा कानपुर	4 0 3 6	00	00	50
		2 1 0 5	00	05	25
		3 0 6 5	00	00	65
		2 9 7 7	00	00	40
		2 9 7 6	00	01	00
		1 3 8 1 8/2 8 4 0	00	01	45

[फा. सं. एल-14014/5/2013-जीपी]

श्रीप्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th May, 2014

**S.O. 1254(E).**—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 404(E) dated the 10th February, 2014, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 15th February, 2014, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in State of Rajasthan for transportation of Natural Gas from Mehsana to Bhatinda (Chittorgarh-Udaipur Section) by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 20.03.2014;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL), free from all encumbrances;

GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

**SCHEDULE**

<b>TEHSIL : GIRVA</b>			<b>DISTRICT : UDAIPUR</b>		<b>STATE :</b>
			<b>RAJASTHAN</b>		
Sr. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	BICHHADI	1125	00	02	50
		1285	00	03	20
		1644	00	14	18
		2510	00	00	85
		2511	00	00	40
2	CHHOTABHALO KA GUDA	1373	00	00	43
		987	00	00	80
3	BHALO KA GUDA	2153	00	01	03
		3083	00	01	08
		2950	00	00	40
		4977/3269	00	02	75
		3322	00	00	40
		3212	00	01	45
		3253	00	01	44
		4653	00	01	80

		4590	00	00	40
		4409	00	02	55
4	MOTA DEVARA	4034	00	01	36
		4065	00	01	80
		4084	00	01	20
		4185	00	00	90
		4172	00	03	20
		4221	00	04	00
		4242	00	02	50
		4284	00	01	08
5	KHEGARO KI BHAGAL	4529/6536	00	02	90
6	LAKADWAS	2917	00	05	00
		3328	00	16	95
7	KANPUR	242	00	02	02
		175	00	00	40
8	KHEDA KANPUR	4036	00	00	50
		2105	00	05	25
		3065	00	00	65
		2977	00	00	40
		2976	00	01	00
		13818/2840	00	01	45

[F. No. L-14014/5/2013-GP]

S. P. AGARWAL, Under Secy.